

प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत एवं पुनर्वास की परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास की व्यापक योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की मौजूदा आठ योजनाओं को वर्ष 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

परियोजना का उद्देश्य

- इन योजनाओं के माध्यम से शरणार्थियों, वसिस्थापितों, आतंक व जातीय हिसा से प्रभावित लोगों, सीमापार से होने वाली गोलीबारी से पीड़ित तथा खान/IED (Improvised Explosive Device) वस्फोट से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

परियोजना के लिये निर्धारित वित्तीय अनुदान

- 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वित्तीय अनुदान 3,183 करोड़ रुपए होगा।
- वर्षवार वित्तीय अनुदान 2017-18 के लिये 911 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिये 1372 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिये 900 करोड़ रुपए है।

योजनाएँ

- 1984 के सक्खि वरीधी दंगों के मृतक आश्रितों के लिये राहत राश को बढ़ा कर पाँच लाख रुपए किया गया।
- तमलिनाडु और ओडिशा के कैपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
- पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से वसिस्थापित परिवारों तथा जम्मू-कश्मीर के छाम्ब से वसिस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये एकमुश्त केंद्रीय सहायता।
- तबिबती शरणस्थलों में प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण के परबिय के लिये पाँच वर्षों तक केंद्रीय तबिबती राहत समिति (CTRC) को वित्तीय सहायता।
- त्रपुरा के राहत कैपों में रह रहे बरू समुदाय के लिये त्रपुरा सरकार को वित्तीय सहायता।
- त्रपुरा के बरू/रयिंग समुदायों का मजोरम में पुनर्वास।
- आतंक/जातीय हिसा तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीड़ित लोगों और खान/IED वस्फोटों के पीड़ितों की सहायता के लिये केंद्रीय योजना।
- सीमा भूमि समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच रहियशी इलाकों के हस्तांतरण के पश्चात बांग्लादेश व कूच बहिर ज़िले के रहियशी इलाकों में पुनर्वास पैकेज तथा अवसंरचना का उन्नयन।